



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 29—दिसम्बर 5, 2008 (अग्रहायण 8, 1930)
 No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 29—DECEMBER 5, 2008 (AGRAHAYANA 8, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई अधिपत्र नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1401	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल हैं) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1079	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	15	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	7277
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1989	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	513
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	10777
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	871
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों की दर्शनी वाला सम्पूर्ण	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1401	and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1479	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	15	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1989	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	7277
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	513
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi—Languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications (including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies)	10775
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	871
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statutes of Births and Deaths etc. both in English and	

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 नवम्बर 2008

संकल्प

सं. 11011/5/2004-हि.का.क.--इस विभाग के दिनांक 22 नवम्बर, 2005 के संकल्प सं. 11011/5/2004-हि.का.क. के अनुक्रम में, आर्थिक कार्य विभाग (वित्तिय सेवा विभाग सहित) की हिन्दी सलाहकार समिति का कार्यकाल 22 नवम्बर, 2008 से 6 माह की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, योजना आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

कुमार संजय कृष्णा
संयुक्त सचिव

वस्त्र मंत्रालय
विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 6 अक्टूबर 2008

संकल्प

सं. के-12012/5/13/2008-पी एण्ड आर--भारत सरकार ने संकल्प संख्या के 12012/5/16/2006-पी एण्ड आर दिनांक 8 सितम्बर, 2006 के द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए पुर्नगठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है।

2. संकल्प संख्या के -12012/5/16/2006-पी एण्ड आर दिनांक 20 अगस्त, 2008 के क्रम में बोर्ड के अध्यक्ष ने पुर्नगठित बोर्ड की अवधि को आगामी आदेशों तक अथवा दो वर्षों की अवधि के लिए, जो भी कम हो, के लिए बढ़ाने की अब स्वीकृति दे दी है।

3. इस संकल्प की तिथि तक पुर्नगठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य सचिव सहित 24 सरकारी सदस्यों तथा दो उपाध्यक्षों सहित 61 गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल करते हुए बोर्ड की संख्या 86 सदस्य है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(डॉ.) संदीप श्रीवास्तव
अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

दिनांक 7 अक्टूबर 2008

संकल्प

सं. के-12012/5/16/2006-पी एण्ड आर--संकल्प सं.-12012/5/16/2006-पी एण्ड आर, दिनांक 06.10.2008 द्वारा पुर्नगठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की अवधि को 2 वर्षों के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी कम हो, के लिए बढ़ाया गया था। भारत सरकार ने श्री सिरौराम भगो, एफए-137, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015 को नए गैर-सरकारी सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है जबकि संकल्प दिनांक 6 अक्टूबर, 2008 एवं संकल्प दिनांक 7 अक्टूबर, 2008 के द्वारा वर्धित समयावधि में मौजूदा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य यथावत बने रहेंगे।

उपरोक्त सदस्य को शामिल करते हुए पुर्नगठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य सचिव सहित 24 सरकारी सदस्यों तथा 66 गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल करते हुए बोर्ड की वर्तमान संख्या 91 सदस्य हो जाएगी।

तथापि, दिनांक 8 सितम्बर, 2006 के संकल्प में दर्ज अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें वही रहेंगी तथा उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(डॉ.) संदीप श्रीवास्तव
अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

संक्षेप

सं. सं-12012/5-16-2006-पी एण्ड आर, दिनांक 06.10.2006 के संकल्प द्वारा पुनर्गठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की शर्तों के अंतर्गत 2 वर्षों के लिए अथवा अन्यथा आदेशों तक जो भी कम हो, के लिए कुशल तथा शान्तिपूर्ण समकालीन मोडर्न अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की सभी सदस्यों एवं गैर-सदस्यों को यथावत बनाए रखते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को नए गैर-सदस्यों सदस्यों के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है :

1. श्रीमती सुशोभा अण्णावलाल,
51, भारतीय स्टूडेंट्स, गोर्खीपेदीपल्लवम, इरोड, तमिलनाडु
2. श्री रोहित गुप्ता,
336, सैफा, 15 ए, भोएडा
3. श्री गुरपाल सिंह सेठ,
घो-8, फोन नं. 31, ग्राम फाल्ड गुरुगुरु
सी. एच. एच. 191, सेन्ट्रल लैंड के समने
जे. बी. लिंक रोड अन्धेरी (ईस्ट), मुम्बई 400094, महाराष्ट्र
4. सुश्री कर्मा मेजारीय,
सुपुत्री श्री कनका मेजारीय,
7, लक्ष्मीका कालोरी, इन्दौर, मध्य प्रदेश

उपरोक्त सदस्यों को शामिल करते हुए पुनर्गठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य सचिव सहित 24 सरकारी सदस्यों तथा 65 गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल करते हुए बोर्ड की वर्तमान सदस्य 90 सदस्य हो जाएगी।

अर्थात्, दिनांक 8 अक्टूबर, 2006 के संकल्प में दत्ते अखिल भारतीय निबंधन एवं शर्तें बड़ी होंगी तथा उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी सदस्यों को प्रेषित की जाए तथा उसे भारत के गणपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(डॉ.) मन्मथ श्रीवास्तव

अध्यक्ष (आयुक्त, हस्तशिल्प)

खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर 2008

संकल्प

सं. 35/2-2007-खान-3-—अखिल भारतीय खान व्यूरो के अन्तर्गत कार्य प्रणाली में कुछ वर्षों के अन्तर में इच्छुक विभिन्न संगठनों के पक्ष-कार्यों को सुदृढ़ करने तथा भारतीय खान व्यूरो को कार्य प्रणाली की उन्नतताओं का विषयपरक प्रत्योक्षण करने और इसकी उपयोगिता और प्रभावकारिता को सतत रूप से बढ़ाने के अर्थोद्देश्यों में सरकार को प्रसन्नता के लिए भारतीय खान व्यूरो में की समिति ने दि. 22.11.1997 में पञ्जाब अपनी रिपोर्ट में भारतीय खान व्यूरो के लिए एक सलाहकार बोर्ड गठित किया जाने की सिफारिश की थी। तदनुसार, केन्द्र सरकार ने अपनी संकल्प सं. 23012/99-80-खान-6, दिनांक 12 जनवरी, 1998 के द्वारा भारतीय खान व्यूरो के लिए एक सलाहकार बोर्ड गठित किया था।

और अखिल संकल्प सं. सं. 12014/10/85-खान-6, दिनांक 28 जनवरी, 1986, सं. एफ-12014/2-88-खान-6, दिनांक 8 अक्टूबर, 1988, सं. एफ-12014/6/90-खान-6 दिनांक 23 मई, 1990, सं. 35/1-95-खान-3, दिनांक 20 जुलाई, 1995 और कार्योन्मुख आदेश सं. 35/1-96-खान-3, दिनांक 23 मई, 1997, संकल्प सं. 35/2-99-खान-3, दिनांक 3 नवम्बर, 1999 और सं. 35/1-2002-खान-3, दिनांक 21 मई, 2002 के द्वारा उक्त सलाहकार बोर्ड के समय-समय पर पुनर्गठन किया गया।

इसलिए अब पूर्व के सभी संकल्पों के अधिलेखन में भारतीय खान व्यूरो के सलाहकार बोर्ड का निम्न प्रकार से पुनर्गठन किया जाता है :—

गठन

अध्यक्ष

सचिव खान मंत्रालय

सदस्य

1. विशेष सचिव, खान मंत्रालय
2. अपा सचिव (अध्यक्ष सचिव और वित्तीय सलाहकार, खान मंत्रालय)
3. संयुक्त सचिव (प्रधान, भारतीय खान व्यूरो), खान मंत्रालय
4. निदेशक/उप निदेशक (प्रभाग, भारतीय खान व्यूरो), खान मंत्रालय
5. महानिदेशक, भारतीय खान व्यूरो, नागपुर
6. महानिदेशक, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोलकाता
7. महानिदेशक, खान व्यूरो, निदेशक, धनबाद
8. सलाहकार (आर. एच. एस.) योजना आयोग, नई दिल्ली
9. इस्पात विभाग, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि
10. विज्ञान और औद्योगिक विभाग, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि
11. पर्यावरण और वन संरक्षण, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि
12. भारतीय खनिज सर्वेक्षण एजेंसी (फिमो), नई दिल्ली का अध्यक्ष या महासचिव
13. आंध्र प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधि
14. राजस्थान सरकार का एक प्रतिनिधि
15. उड़ीसा सरकार का एक प्रतिनिधि
16. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान कॉपर लि., कोलकाता
17. निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर
18. निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर
19. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इलेक्ट्रॉनिक्स खनिज विभाग निगम, रायपुर
20. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल एल्यूमीनियम को. लि., भुवनेश्वर
21. निदेशक, ईंधन विकास ऑफिस, माहन्म, धनबाद

सदस्य सचिव

तकनीकी सचिव, अर्थोद्देश्य, नागपुर

बोर्ड के कार्य का व्यवस्थापन सलाहकार होगा। यह सरकार और भारतीय खान व्यूरो, दोनों को सहाय होगा। बोर्ड, सरकार के साथ सीधे पत्र-व्यवहार

करने के लिए स्वतंत्र होगा। भारतीय खान ब्यूरो बोर्ड को सचिवालय प्रदान करेगा। बोर्ड अपनी कार्य प्रणाली, नियम और प्रक्रियाएं स्वयं तैयार करेगा परन्तु सरकार की अपेक्षा होगी कि इसकी वर्ष में दो बैठक अवश्य हों। बोर्ड के कार्य निम्नवत् होंगे :--

कार्य

1. आगामी वर्ष के कार्यक्रमों के कार्यक्रम की समीक्षा करना और सलाह देना।
2. भारतीय खान ब्यूरो के प्रस्तावों तथा वार्षिक और पंचवर्षीय योजना की समीक्षा करना और सलाह देना।
3. भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों के बारे में सूचित करना।
4. प्रबंधन सूचना और प्रबंधन सेखा की पद्धतियों पर सलाह देना।
5. भारतीय खान ब्यूरो के कार्यकरण को और अधिक कारगर बनाने के तरीकों पर सलाह देना।

कार्यकाल

सलाहकार बोर्ड का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, योजना आयोग, भारत के महालेखापरीक्षक एवं नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा परमाणु ऊर्जा विभाग को परिचालित किया जाए।

आर . के. मल्होत्रा
उप सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 27 अक्टूबर 2008

संकल्प

सं. एफ 3-10/2008-यू 3--जबकि 'भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, 1972 की नियमावली' के नियम 3 के अनुसरण में भारत सरकार ने, दिनांक 26 सितम्बर, 2008 के संकल्प सं. एफ 3-10/2008-यू 3 के द्वारा परिषद्, अर्थात् 'भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्' का पुनर्गठन किया था।

अब, भारत सरकार एतद्वारा दिनांक 26.09.2008 से उपर्युक्त संकल्प में निम्नलिखित संशोधन करती है :--

VI. चार व्यक्ति भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे

क्र. सं.	विद्यमान	निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किए जाएंगे
4	महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कोलकाता	निदेशक भारतीय मानव-शास्त्रीय विज्ञान सर्वेक्षण (भारतीय संग्रहालय परिसर), 27, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, कोलकाता-700016

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक सूचना के लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

उपमन्त्रि बसु
निदेशक

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 17th November 2008

RESOLUTION

No. F10117/2004-HIC. In continuation of this Department's Resolution No F10115/2004-HIC dated the 22nd November, 2005, the tenure of Hindi Sahitya Samiti of the Department of Economic Affairs (including Deptt. of Financial Services) is extended with effect from 22nd November, 2008 for a period of six months.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the members of this Committee, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Committee of Parliament on Official Language, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

KUMAR SANJAY KRISHNA
Joint Secy

MINISTRY OF TEXTILES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(HANDICRAFTS)

New Delhi-110066, the 6th October 2008

RESOLUTION

No. K-12012/5-13/2006-P&R 920. The Government of India had decided to extend the tenure of the reconstituted All India Handicrafts Board vide Resolution No. K-12012/5-16/2006-P&R dated 6th September 2006, for a period of two years.

2. In continuation to Resolution No. K-12012/5-16/2006-P&R dated 29th August 2008, the Chairman of the Board has now approved extension of the term of the reconstituted Board till further order or for a period of two years, whichever is earlier.

3. As on date of this Resolution, the strength of the Board is 86 Members, comprising Chairman, 24 Official Members, including Member Secretary, and 61 Non Official Members, including 2 Vice Chairmen in the Reconstituted All India Handicrafts Board.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it will be published in the Gazette of India.

(Dr.) SANDHEEP SRIVASTAVA
Additional Development Commissioner (Handicrafts)

The 7th October 2008

RESOLUTION

No. K-12012/5-16/2006-P&R 921. The term of the reconstituted All India Handicrafts Board was extended for a period of two years, or till further orders, whichever is earlier, vide

Resolution No. 12012/5-16/2006-P&R dated 6th October, 2008. The Government of India has now decided to induct Shri Srikant Maggo, FA-137, Mansarovar Garden, New Delhi-110015 as new non official members of All India Handicrafts Board, while retaining all officials and non official members of the existing All India Handicrafts Board extended term vide resolution dated 6th October 2008 & resolution dated 7th October 2008.

With the above inclusion the strength of the Board shall be 91 Members, comprising of Chairman, 24 official Members including Member Secretary and 66 Non-official Members in the reconstituted All India Handicrafts Board.

All other terms and conditions recorded in the resolution dated 8th September 2006 will, however, remain same and unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all concerned and that it will be published in the Gazette of India.

(Dr.) SANDHEEP SRIVASTAVA
Additional Development Commissioner (Handicrafts)

RESOLUTION

No. K-12012/5-16/2006-P&R 923. The term of the reconstituted All India Handicrafts Board was extended for a period of two years, or till further orders, which is earlier, vide Resolution No. 12012/5-16/2006-P&R dated 6th October, 2008. The Government of India has now decided to induct the following as new non official members of All India Handicrafts Board, while retaining all officials and non official members of the existing All India Handicrafts Board :—

1. Shri. Sushila Arumachalam
57, Bharathi Street, Gobichettupalayam
Erode, Tamil Nadu
2. Shri Rohit Gupta,
336, Sector-15A, Noida.
3. Shri Gurnpal Singh Sethi
D-8, Flat No. 34, Green Field Rock End, CHS Ltd.,
Opp. Santaxy Encl., V. Link Road, Andheri (East),
Mumbai-400094, Maharashtra.
4. Ms. Krati Sojaria
D/o Shri Kamlesh Sojaria,
7, Gulmohar Colony, Indore, Madhya Pradesh.

With the above inclusion the strength of the Board shall be 90 Members, comprising of Chairman, 24 official Members including Member Secretary and 65 Non-official Members in the reconstituted All India Handicrafts Board.

All other terms and conditions recorded in the resolution dated 8th September 2006 will, however, remain same and unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all concerned and that it will be published in the Gazette of India.

(Dr.) SANDHEEP SRIVASTAVA
Additional Development Commissioner (Handicrafts)

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 14th November 2008

RESOLUTION

No. 35/2/2007-M.III. Whereas with a view to strengthening the links between Indian Bureau of Mines and the various organisations interested in or connected with the function of the Indian Bureau of Mines to enable the Government to have objective appraisal of the effectiveness of the working of the Indian Bureau of Mines and of the ways and means by which its utility and effectiveness can be continually enhanced, the Indian Bureau of Mines Review Committee, in its Report submitted in December, 1979 had recommended the formation of an Advisory Board for Indian Bureau of Mines. Accordingly the Central Government vide its Resolution No. 23012/99-80-M. VI dated the 12th January, 1981 constituted an Advisory Board for Indian Bureau of Mines.

And whereas vide Resolution No. F.12014/10/85-M. VI dated the 28th January, 1986, No. F.12014/2/88-M. VI dated the 8th April 1988, No. F.12014/6/90-M. VI dated the 23rd May, 1990, No. 35/1/95-M. III dated the 20th July, 1995, Office Memorandum No. 35/1/96-M. III dated the 23rd May, 1997, Resolution No. 35/2/99-M. III dated the 3rd November, 1999 and No. 35/1/2002-M. III dated the 31st May, 2002 the said Advisory Board has been reconstituted from time to time.

Now, therefore, in supersession of all earlier resolutions, the Advisory Board of Indian Bureau of Mines is reconstituted with the following composition :—

COMPOSITION

CHAIRMAN

Secretary, Ministry of Mines.

MEMBERS

1. Special Secretary/Additional Secretary, Ministry of Mines.
2. Additional Joint Secretary & Financial Advisor, Ministry of Mines.
3. Joint Secretary (In-charge IBM), Ministry of Mines.
4. Director/Deputy Secretary (In-charge of IBM), Ministry of Mines.
5. Controller General, Indian Bureau of Mines, Nagpur.
6. Director General, Geological Survey of India, Kolkata.
7. Director General, Directorate of Mines Safety, Dhanbad.
8. Advisor (I&M), Planning Commission, New Delhi.
9. A Representative of Department of Steel, New Delhi.
10. A Representative of Department of Science and Technology, New Delhi.

11. A Representative of Ministry of Environment and Forest, New Delhi.
12. President/Secretary, Federation of Indian Mineral Industries, New Delhi.
13. A Representative of Government of Andhra Pradesh.
14. A Representative of Government of Rajasthan.
15. A Representative of Government of Orissa.
16. Chairman-cum-Managing Director, Hindustan Copper Limited, Kolkata.
17. Director, National Environment Engineering Research Institute, Nagpur.
18. Director, Regional Research Laboratory, Bhubneshwar.
19. Chairman-cum-Managing Director, Chhattisgarh Mineral Development Corporation, Raipur.
20. Chairman-cum-Managing Director, National Aluminium Company Ltd., Bhubneshwar.
21. Director, Indian School of Mines, Dhanbad.

MEMBER SECRETARY

Technical Secretary, IBM, Nagpur.

The functions of its Board will be advisory in character. It will advise both the Indian Bureau of Mines and the Government. The Board will be at liberty to correspond directly with Government. The Indian Bureau of Mines will provide the Secretariat of the Board. The Board should devise its own working rules and procedures but the Government would expect it to meet at least twice a year. The functions of the Board will be as follows :—

FUNCTIONS

1. To review and advise on the programme of work during the coming year.
2. To review and advise on the Annual and Five year plan and proposals of Indian Bureau of Mines.
3. To apprise from time to time the work, in different areas, done by the Indian Bureau of Mines.
4. To advise on systems of Management Information and Management accounting.
5. To advise on ways and means of making Indian Bureau of Mines functioning more effective.

TENURE

The tenure of the Advisory Board will be for two years.

ORDER

Ordered that this Resolution be communicated to all the State Governments and Central Ministries of the Government

of India, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Indian Bureau of Mines, Geological Survey of India and Department of Atomic Energy.

R. K. MALHOTRA
(Dy. Secy.)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-1, the 27th October 2008

RESOLUTION

No. F.3-10/2008-U.3. — Whereas in pursuance of Rule 3 of the 'Rules of the Indian Council of Historical Research, New Delhi, 1972', the Government of India reconstituted the Council, viz., 'Indian Council of Historical Research' vide Resolution No. F.3-10/2008-U.3, dated the 26th September, 2008:

Now, the Government of India hereby makes the following amendment to the said Resolution dated 26.09.2008:

VI. Four persons to represent Government of India

Sl. No.	Existing	To be substituted as follows
4	Director-General Archaeological Survey of India Kolkata	Director Anthropological Survey of India (Indian Museum Campus), 27, Jawaharlal Nehru Road, Kolkata-700016

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

UPAMANYU BASU
(Dy.)